

11713A

[This question paper contains 4 printed pages]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question paper : 11713A

Unique Paper Code : 2416000002

Name of the Paper : Finance for Everyone

Name of the Course : Common Prog Group (UGCF)

Semester : I/III/V

Duration: 2 Hour

Maximum Marks: 60

Instruction for Candidates:

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Attempt **any four** out of **six** questions.
3. All questions carry equal marks.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

- Q1.** Discuss the importance of preparing a budget as an effective tool of financial planning? Also, prepare a family budget and discuss how one can manage budget deficit.
- Q2** "When you save your money in a bank, you're not just securing it against loss or theft you're giving it the power to grow with interest, build financial discipline, and prepare for life's future goals." In context of this statement discuss the various types of deposit schemes provided by banks in India.
- Q3.** "Life insurance is not just a policy; it's a promise to protect your loved ones and secure their future" In context of this statement explain the importance of life insurance policy. Also briefly discuss the different types of Life insurance policies in India.
- Q4.** "More than just a mail centre, the Indian post office is a pillar of financial inclusion." In context of this statement discuss the importance of Post Offices in India and briefly discuss some major schemes.
- Q5.** "Financial planning isn't just about saving money it's about turning your dreams into goals, your goals into plans, and your plans into reality." In the light of this statement discuss the steps involved in financial planning process. Also make a short-term financial plan for yourself.
- Q6.** Write a short note on any three:
- (a) RTGS and NEFT
 - (b) Online Banking
 - (c) IPO and FPO
 - (d) Sukanya Samriddhi Yojana
 - (e) Mutual Fund Types

प्रश्न-1

वित्तीय नियोजन के एक प्रभावी उपकरण के रूप में बजट तैयार करने के महत्व पर चर्चा कीजिए। साथ ही, एक पारिवारिक बजट तैयार कीजिए, तथा यह समझाइए कि बजट घाटे (Budget Deficit) को किस प्रकार प्रबंधित किया जा सकता है।

प्रश्न-2

“जब आप अपना पैसा बैंक में बचत के रूप में रखते हैं, तो आप उसे केवल नुकसान या चोरी से सुरक्षित नहीं करते, बल्कि ब्याज के माध्यम से उसे बढ़ने की शक्ति देते हैं, वित्तीय अनुशासन विकसित करते हैं और भविष्य के लक्ष्यों के लिए तैयारी करते हैं।”

इस कथन के संदर्भ में भारत में बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की जमा योजनाओं (Deposit Schemes) पर चर्चा कीजिए।

प्रश्न-3

“जीवन बीमा केवल एक पॉलिसी नहीं है, बल्कि अपने प्रियजनों की सुरक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित करने का एक वचन है।”

इस कथन के संदर्भ में जीवन बीमा पॉलिसी का महत्व समझाइए। साथ ही भारत में उपलब्ध जीवन बीमा पॉलिसियों के विभिन्न प्रकारों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।

प्रश्न-4

“भारतीय डाकघर केवल एक डाक केंद्र नहीं, बल्कि वित्तीय समावेशन का एक मजबूत स्तंभ है।”

इस कथन के संदर्भ में भारत में डाकघरों के महत्व पर चर्चा कीजिए तथा कुछ प्रमुख डाकघर योजनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

प्रश्न-5

“वित्तीय नियोजन केवल धन बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके सपनों को लक्ष्यों में, लक्ष्यों को योजनाओं में और योजनाओं को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया है।”

इस कथन के आलोक में वित्तीय नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित चरणों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, अपने लिए एक अल्पकालिक (Short-term) वित्तीय योजना भी तैयार कीजिए।

प्रश्न-6

:

निम्नलिखित में से किसी तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (क) आरटीजीएस (RTGS) एवं एनईएफटी (NEFT)
- (ख) ऑनलाइन बैंकिंग (Online Banking)
- (ग) आईपीओ (IPO) एवं एफपीओ (FPO)
- (घ) सुकन्या समृद्धि योजना
- (ङ) म्यूचुअल फंड के प्रकार